

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 187]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 4 मार्च 2025 — फाल्गुन 13, शक 1946

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़  
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2025

आदेश

फा. क्र.-21/चार/वि.स.चु./निरर्हित/2025/912. — भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के आदेश पत्र संख्या 75/छत्तीसगढ़-वि.स./75/2024/सी.ई.एम.एस-III, दिनांक 11-02-2025 के द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2023 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री राकेश यादव, जिला — राजनांदगांव जिनके द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल न करने अथवा सही रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहे अभ्यर्थी को आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग का आदेश सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।

हस्ता./—

(रीना बाबासाहेब कंगाले)  
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग  
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी, 2025 – 22 माघ, 1946 (शक)

आदेश

सं. 75/छत्तीसगढ़-वि.स./75/2024/सी.ई.एम.एस.-III. – यतः, छत्तीसगढ़ राज्य की 75-राजनांदगांव विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2023 अधिसूचना नं. 08/ चार/विसनि/2023 दिनांक 13.10.2023 के जरिए की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 75-राजनांदगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 03 दिसम्बर, 2023 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 02 जनवरी, 2024 थी; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रस्तुत पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2023-24/66 दिनांक 30/01/2024 व जिला निर्वाचन अधिकारी के पत्र संख्या 21/वि.स.नि./ई.ई.एम./2023 के जरिए अग्रेषित दिनांक 05/01/2024 की रिपोर्ट के अनुसार श्री राकेश यादव जो छत्तीसगढ़ विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2023 के निर्वाचन क्षेत्र 75-राजनांदगांव से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री राकेश यादव को कारण बताओ नोटिस सं. 75/छत्तीसगढ़-वि.स./75/2024/सी.ई.एम.एस.-III, दिनांक 26 जुलाई, 2024 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 26 जुलाई, 2024 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री राकेश यादव को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, राजनांदगांव ने अपने पत्र संख्या 3314/ई.एस./2024 दिनांक 03 सितंबर, 2024 के जरिए आयोग को सूचना दी है कि उक्त नोटिस तामिली नहीं हो पाया एवं उनके भाई द्वारा मूचिन किया गया कि अभ्यर्थी श्री राकेश यादव बटवारे के उपरान्त से यहाँ निवासरत नहीं हैं, और

यतः, आयोग ने अपने पत्र संख्या 76/छत्तीसगढ़-वि.स./75/2023/सी.ई.एम.एस.-III दिनांक 19 सितंबर, 2024 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया कि अभ्यर्थी श्री राकेश यादव द्वारा नामांकन पत्र में दिये गये पते पर नोटिस चम्पा करा दें एवं नोटिस चम्पा के 20 दिन पश्चात की अद्यतन संवीक्षा रिपोर्ट आयोग को भेजें।

यतः जिला निर्वाचन अधिकारी राजनांदगांव द्वारा अपने पत्र संख्या 3443/वि.स.नि./ई.ई.एम./2023 दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 के जरिए आयोग को सूचना दी गई कि उक्त नोटिस अभ्यर्थी के दिए गये पते पर दिनांक 01.10.2024 को चम्पा किया गया।

यतः जिला निर्वाचन अधिकारी राजनांदगांव द्वारा अपने पत्र संख्या 3443/वि.स.नि./ई.ई.एम./2023 दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 के द्वारा अग्रेषित की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री राकेश यादव द्वारा नामांकन पत्र में दिये गये पते पर नोटिस चम्पा करने के 20 दिन बाद भी अभ्यर्थी ने न तो कोई भी अभ्यावेदन किया और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री राकेश यादव निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 75-राजनांदगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के माध्याग निर्वाचन, 2023 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री राकेश यादव, वार्ड नं. 22, धमधा नाका, छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

हस्ता./—

(आनंद कुमार पाठक)  
सचिव  
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA  
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 11th February, 2025 — 22 Magh, 1946 (Saka)

ORDER

No. 75/Chhattisgarh-LA/75/2024/CEMS-III.- WHEREAS, the General Election to 75-Rajnandgaon, Legislative Assembly of Chhattisgarh 2023 was held vide Notification No. 08/चार/वि.स.नि/2023 dated 13.10.2023.

**WHEREAS**, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

**WHEREAS**, the result of the said election along with 75-Rajnandgaon Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 03<sup>rd</sup> December, 2023. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 02<sup>nd</sup> January, 2024; and,

**WHEREAS**, as per the report submitted by the District Election Officer Rajnandgaon vide his letter no. 21/वि.स.नि./ई.ई.एम./2023, dated 05/01/2024 forwarded by the Chief Election Officer, Chhattisgarh vide his letter No. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2023-24/66 dated 30/01/2024 Sh. Rakesh Yadav, a contesting candidate of Chhattisgarh from 75-Dongregaoan, Assembly Constituency of Chhattisgarh has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

**WHEREAS**, on the basis of the reports of the District Election Officer Rajnandgaon, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh a Show-Cause notice, 75/Chhattisgarh-LA/75/2024/CEMS-III dated 26.07.2024 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Sh. Rakesh Yadav, for not lodging the account of Election Expenses; and,

**WHEREAS**, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 26.07.2024, Sh. Rakesh Yadav, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

Whereas, District Election officer, Rajnandgaon informed the Commission through its letter no. 3314/ई.एस./2024, dated 03/09/2024 that the said notice could not be served and it was informed by his brother that the candidate Mr. Rakesh Yadav not residing there after partition, and:

Whereas, the Commission, through its letter number 76/Chhattisgarh-Vis/75/2023/CEMS-III dated 19.09.2024 directed the District Election Officer that the said notice would be pasted at the address given in the nomination form by the candidate Shri Rakesh Yadav and send the updated scrutiny report after 20 days of pasting the said notice to the Commission.

Whereas, District Election Officer, Rajnandgaon informed the Commission through its letter No. 3443/वि.स.नि./ई.ई.एम./2023 dated 21.10.2024 that the said notice was pasted on 01.10.2024 at the address given by the candidate at the time of nomination.

WHEREAS, the District Election Officer, Rajnandgaon, in his Supplementary Report forwarded vide its letter No. 3443/वि.स.नि./ई.ई.एम./2023 dated 21.10.2024 reported that Sh. Rakesh Yadav, neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he neither furnished any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Sh. Rakesh Yadav, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
  - (b) has no good reason or justification for the failure,
- the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Rakesh Yadav, resident of Ward No. 22, Dhamdha Naaka, Chhattisgarh a contesting candidate from 75-Dongreogan, Assembly Constituency of the State of Chhattisgarh in the General Election to the Legislative Assembly 2023 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

Sd/-

**(Anand Kumar Pathak)**

Secretary  
Election Commission of India.